

(4)

7. Explain the following dyeing process:

(i) Stock dyeing 5+5=10

(ii) Piece dyeing

निम्नलिखित रंगाई प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए:

(i) स्टॉक रंगाई

(ii) पीस रंगाई

Unit-IV/ इकाई-IV

8. What is the difference between soaps and detergents? explain composition and manufacturting process of soaps and detergents. 2+8=10

साबुन एवं अपमार्जक में क्या अन्तर है? साबुन एवं अपमार्जक के संगठन एवं निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए।

9. Write notes on the following:

(i) Whitening Agents

(ii) Classiifcation of stains

निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए:

(i) सफेदीकरण कारक

(ii) धब्बों का वर्गीकरण

A

(Printed Pages 4)

Roll. No. _____

AS-2197

**M.A. (Second Semester) Examination,
2015**

HOME SCIENCE

Fourth Paper

(Fabric Construction & Care)

Time Allowed : Three Hours] [Maximum Marks : 70

Note : Answer **five** questions in all. Question **No.1** is **compulsory**. Attempt one question from each Unit. **All** questions carry equal marks. कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न सं.1 अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न कीजिये। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Write short answers of the following :

निम्नलिखित के संक्षिप्त उत्तर लिखिए : 3×10=30

(i) Laces

लेस

(2)

- (ii) Properties of Knitted clothes
बुने हुए वस्त्रों की विशेषताएँ।
- (iii) Bonding
बान्डिंग
- (iv) Importance of Fabric Finishes
परिधान परिसज्जाओं का महत्व
- (v) Mercerization
मर्सराइज़ेशन
- (vi) Wash N Wear Finish
वॉश एन वीयर परिसज्जा
- (vii) Foam Dyeing
फोम रंगाई
- (viii) Yarn Dyeing
यार्न रंगाई
- (ix) Removal of Ink and Lipstick stains
स्याही तथा लिपस्टिक के धब्बे छुड़ाना
- (x) Advantages of Dry cleaning
शुष्क धुलाई के लाभ

Unit-I/ इकाई-I

2. Explain in detail parts and functions of Loom.

10

करघे के भाग/अंग एवं कार्यों की विस्तृत व्याख्या कीजिए।

AS-2197

(3)

3. Write notes on the following: 5+5=10
- (i) Decorative Weaves
- (ii) Felting and Lace making
निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए:
- (i) सजावटी बुनाइयाँ
- (ii) फेल्टिंग तथा लेस का निर्माण

Unit-II/ इकाई-II

4. What are the various types of finishes? write any two finishes in detail. 3+7=10
परिसज्जाओं के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? किन्हीं दो परिसज्जाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए।
5. Write notes on the following : 5+5=10
- (i) Anti static Finish
- (ii) Water resistant Finish
निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए:
- (i) एन्टीस्टैटिक परिसज्जा
- (ii) जल अवरोधक परिसज्जा

Unit-III/ इकाई-III

6. Explain types and theory of dyeing in detail.

10

रंगाई के प्रकार तथा सिद्धान्त की विस्तृत व्याख्या कीजिए।

AS-2197

P.T.O.